



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346]
No. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1983/BHADRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1983

सं० 265/83-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 709 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-
शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की
अधिसूचना सं० 201-सीमाशुल्क तारीख, 14 अक्टूबर, 1980
को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैफि अधि-
नियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के
शर्ष सं० 71.05/11 (1) के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण को,
जब उसका भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य
विभाग) की लोक सूचना सं० 39-आई टी सी (पी एन)/
80, तारीख 14 अक्टूबर, 1980 द्वारा अधिसूचित विदेशी
क्रेता द्वारा प्रदाय किए गए स्वर्ण के बदले में स्वर्ण आभूषणों
और वस्तुओं के (जो सिककों से भिन्न हैं) निर्यात की स्कीम
अथवा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना

सं० 10-आई टी सी (पी एन)/83, तारीख 15 अप्रैल
1983 द्वारा अधिसूचित विदेश में प्रदर्शनियों में विक्रय के
लिए स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के (जो सिककों से भिन्न
हैं) निर्यात की स्कीम के अधीन आगत किंवा जाए, उक्त
पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्घरणाय समस्त सीमा-
शुल्क, में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती
है, अर्थात् :—

- (1) ऐसा आगत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए
गए साधारण या विनिर्दिष्ट अनुपात के अंतर्गत
आता है;
- (2) विदेशी क्रेता द्वारा प्रदाय किए गए स्वर्ण के बदले
में स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के (जो सिककों
से भिन्न हैं) निर्यात की स्कीम की दशा में,
आयातकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधपत्र का
ऐसे प्रारूप में और ऐसी राशि के लिए जो सीमाशुल्क
सहायक कलक्टर विनिर्दिष्ट करे, जिसमें वह ऐसे
स्वर्ण आभूषणों या वस्तुओं का जिनके अंतर्गत
जड़ा हुआ वस्तुएं हैं, जिनमें आयात किए गए
स्वर्ण के बराबर स्वर्ण है, आयातकर्ता और स्वर्ण
के विदेशी प्रदायकर्ता के बीच सुसंगत संविदा में

अनुबंधित अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो पर्याप्त कारण दर्शाते किए जाने पर सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुमान करे, निर्यात करने का वचन देते हुए निष्पादन करता है और इस बात के लिए स्वयं का आबद्ध करता है कि वह मांग किए जाने पर स्वर्ण की ऐसी मात्रा पर शुल्क का संदाय करेगा जो आयात की गई स्वर्ण की मात्रा और निर्यात किए गए आभूषणों या वस्तुओं में अंतर्बिष्ट स्वर्ण की मात्रा के बीच के अंतर के बराबर है।

[फा० सं 370/30/83-सीशु-I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th September, 1983

No. 265/83-customs

G.S.R. 709(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 201-Customs, dated the 14th October, 1980, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts gold, falling under Heading No. 71.05/11 (1) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India under the Scheme for export of gold ornaments and articles (other than coins) against gold supplied by the foreign buyer notified by the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Commerce) in the Public Notice No. 39-ITC(PN)/80, dated the 14th October, 1980, or the Scheme for export of gold ornaments and articles (other than coins) for sale at exhibitions abroad notified by the Government of India in the Ministry of Commerce in the Public Notice No. 10-ITC(PN)/83, dated the 15th April, 1983, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, subject to the conditions that—

- (i) the import is covered by a general or specific permit issued by the Reserve Bank of India;
- (ii) in the case of the Scheme for export of gold ornaments and articles (other than coins) against gold supplied by the foreign buyer, the importer or his authorised representative executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, undertaking himself to export gold ornaments or articles, including studded articles, having gold content equivalent to the imported gold within the period stipulated in the relevant contract

between the importer and the foreign supplier of gold, or such extended period as the Assistant Collector of Customs on sufficient cause being shown may allow, and binding himself to pay on demand duty on a quantity of gold representing the difference between the quantity imported and that contained in the exported ornaments or articles.

[F. No. 370/30/83-Cus-I]

सं० 266/83-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 710 (अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 126/83-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

- (क) क्रम सं० 166 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;
- (ख) क्रम सं० 229 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

‘230 सं० 265/83-सीमाशुल्क, तारीख 19 सितम्बर, 1983’।

[फा० सं० 370/30/83-सीमाशुल्क-1]

आर० एस० सिद्धू, अव्वर सचिव,

No. 266/83-CUSTOMS

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied, that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 126/83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely:—

In the Schedule to the said notification,—

- (a) Serial No. 166 and the entry relating thereto shall be omitted;
- (b) after Serial No. 229 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely:—

“230 No. 265/83-Customs, dated the 19th September, 1983.”

[F. No. 370/30/83-Cus-I]

R. S. SIDHU, Under Secy.